

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बाँका-1

Email ID- ee.bankal@gmail.com

पत्रांक- 1642350 / बाँका,

दिनांक-22.03.22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाँका-1 ।

सेवा में,

शाखा,
Bank of Baroda,
Jamui (Bihar).

विषय – Fixed Deposit/ Bank Guarantee का सत्यापन एवं प्रतिज्ञिप्त होने की पुष्टि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक द्वारा एकरारनामा कार्य हेतु आपकी शाखा से निर्गत एवं अधोहस्ताक्षरी के नाम प्रतिज्ञिप्त Fixed Deposit/ Bank Guarantee समर्पित किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत है-

1. संवेदक का नाम- Lal Rupak Kumar Singh

2. कार्य का नाम- Package No.- MR-N/22-23 Banka-1/08

Sl.No.	Tender ID/ Bid ID	F.D. A/c No. & B.G. No.	Validity Date	Amount
1	118329 / 510315	FD A/c No.- 40210300004437	29.03.2024	125000.00
2		FD A/c No.- 40210300004438	29.03.2024	820000.00
Total -				945000.00

कृप्या इसका सत्यापन करते हुए इसे अधोहस्ताक्षरी के नाम प्रतिज्ञिप्त होने की पुष्टि करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाँका-1

Pledged to E.E. RWD Work Division Banka 1



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank



जमा पुष्टि सूचना / Confirmation Advice

LAL RUPAK KUMARSINGH		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	40210300004438
AT UGNICHAK AMRATH		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2109221625
DISTT JAMUI		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	069278293
811307		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	40210200000076
INDIA		शाखा का नाम/Branch Name	JAMUI BIHAR
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA DEPOSIT SCH	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	BHAPS0961A	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
820000	21-09-2022	6.00	0 Months 555 Days	29-03-2024	897799

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज़ :	2. Automatic Renewal Clause :
i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं.	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4 निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी.	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज़ :	6. Premature Withdrawal Clause :
i). करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगानी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम.	i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
ii). करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगानी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम. करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	ii). Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledged to E.E. RWD Work Division Banka 1



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India - International Bank



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

LAL RUPAK KUMARSINGH		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	40210300004437
AT UGNICHAK AMRATH		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2109221524
DISTT JAMUI		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	069278293
811307		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	40210200000076
INDIA		शाखा का नाम/Branch Name	JAMUI BIHAR
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA DEPOSIT SCH	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	BHAPS0961A	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
125000	21-09-2022	6.00	0 Months 555 Days	29-03-2024	125000

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम ii). करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम। करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank ii). Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
--	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature